



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 57) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(दर0)—16—19/2007/2016—पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना के अन्तर्गत चिकना वितरणी के वि0 दू0 7.20 पर निर्मित त्रियक नियामक सह प्रपात सह शीर्ष नियामक संरचना के दिनांक 14.08.2006 को ध्वस्त होने के कारणों की जाँच विभागीय उड़नदस्ता दल से करायी गई। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना से उक्त पदास्थापन काल में हुई। उक्त घटना के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण पृच्छा पत्रांक—1307 दिनांक 27.11.12 द्वारा किया गया।

श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्य अभियंता, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना अन्तर्गत मुख्य नहर एवं शाखा नहर में यांत्रिक कार्य हेतु सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा एवं पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर दोनों प्रमंडलों के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में चिकना वितरणी के वि0 दू0 7.20 पर नया गेट एवं उत्तोलन प्रणाली का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य सम्मिलित था। जिसपर आरोपी पदाधिकारी श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

अतः श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक) के विरुद्ध चिकना वितरणी के वि0 दू0 7.20 पर निर्मित त्रियक नियामक संरचना के बिना अनुमोदित आलेख्य के सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा द्वारा नया गेट

लगाने तथा उत्तोलन प्रणालियों के अधिष्ठापन कार्य करने के प्रस्तावित कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के प्रमाणित आरोप के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

“एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”।

सरकार का उक्त निर्णय श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन सिंह,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 57-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>